



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 441) पटना, बृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2012

मत्स्य निदेशालय

पुराना सचिवालय, कैन्टीन तालाब, पटना-15

कार्यालय-आदेश

13 अगस्त 2012

सं0 म0/स्था0अ0रा0प0(अधी0)-01/12-1154—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक 06.06.2012 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के ज्ञापांक 9393, दि0 29.06.2012 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री आकाश कुमार, पिता— स्व0 निरंजन कुमार, भूतपूर्व पदचर, मत्स्य निदेशालय, पटना को विभाग के अधीन वेतन बैंड रु0 5200— 20200 एवं ग्रेड पे रु0 1800 में रिक्त समूह—‘घ’ के पद “कार्यालय परिचारी” पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण—पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्त कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण—पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वह करेंगे अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

3. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 1919 दि0 20.01.76 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं० 2082, दिनांक 01.04.03 के आलोक में निदेशक मत्स्य तत्काल औपबधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

7. नव नियुक्ति कर्मी की सापेक्ष वरीयता समूह – 'घ' संवर्ग में मानी जाएगी।

8. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
निदेशक मत्स्य।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 441-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>